

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न सं. †*273
सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

आंध्र प्रदेश में प्रसाद योजना के अंतर्गत चयनित परियोजनाएं

†*273. श्री मारगनी भरतः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आंध्र प्रदेश में तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के अंतर्गत चयनित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इन परियोजनाओं के पूरा होने की स्थिति क्या है;
- (ग) इन परियोजनाओं के लिए अब तक जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत नई परियोजनाओं को शामिल करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रस्तावों के प्रत्युत्तर में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है ।

आंध्र प्रदेश में प्रसाद योजना के अंतर्गत चयनित परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 20.03.2023 के लोक सभा के मौखिक प्रश्न सं. †*273 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में विवरण

(क) से (ग) : पर्यटन मंत्रालय ने तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में तीन परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में)	निर्मुक्त राशि (करोड़ रु. में)	स्थिति
अमरावती शहर, गुंटूर जिले का पर्यटन स्थल के रूप में विकास	2015-16	27.77	27.77	पूर्ण
श्रीशैलम मंदिर का विकास	2017-18	43.08	43.08	पूर्ण
विशाखापत्तनम में सिंहाचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी वारी देवस्थानम में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकास	2022-23	54.04	0.00	दिनांक 14.12.2022 को परियोजना अनुमोदित

(घ) और (ड.) : पर्यटन का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है तथापि पर्यटन मंत्रालय वर्तमान में जारी अपनी प्रशाद योजना के अंतर्गत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । इस योजना के तहत प्रस्तावों की प्रस्तुति और परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है जो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से की जाती है और यह निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन, चल रही परियोजनाओं के निष्पादन और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग आदि के अध्यधीन है ।

उपरोक्त के आधार पर मंत्रालय को प्रशाद योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य से दो परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं यथा काकीनाडा जिले के अन्नावरम में 'श्री वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी मंदिर का विकास' और नेल्लोर जिले में 'वेदगिरि लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर का विकास' ।
